



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 426 राँची, शुक्रवार,

13 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 मार्च, 2018

संख्या- 3/पद-01(ख)-10/2014 का.- 1825-- संयुक्त सचिव, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मुकुन्द दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 594/03, गृह जिला- देवघर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद-01(ख)-10/2014 का.- 1826-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजीव नीरज, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- खूँटी) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री नीरज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

संख्या- 3/पद-01(ख)-10/2014 का.- 1827-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री संतोष कुमार प्रजापति, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला- पश्चिमी सिंहभूम) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री प्रजापति को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा मार्च, 2018 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।

3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानान्तरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधौशु,
सरकार के अवर सचिव ।
